



**ABC PUBLIC SCHOOL**  
**PRETEST II EXAMINATION (2023-24)**  
**Class VII**

**Time Allowed: 1:30 hours**

**M.M: 50**

**Format of Question paper**

**Maths**

**Section – A (20 Marks)**

1. Multiple choice questions. (1 × 5 = 5)
2. Fill in the blanks. (1 × 5 = 5)
3. Match the following. (1 × 5 = 5)
4. State true or false. (1 × 5 = 5)

**Section – B (15 Marks)**

1. Solve the following problems. (any five) (3 × 5 = 15)  
(Seven questions should be given)

**Section – C (15 Marks)**

2. Solve the following problems. (any three) (5 × 3 = 15)  
(Four questions should be given)

## Science

### Question paper pattern of physics

**(17 Marks)**

1. MCQ (0.5×4=2)
2. Fill in the blanks (0.5×4=2)
3. True and false (0.5×4=2)
4. One word for the following (0.5×4=2)
5. Short answer the questions (1.5×4=6)
6. Long answer questions (3×1=3)

### Question paper pattern of Chemistry:-

**(17 Marks)**

1. MCQ (0.5×4=2)
2. Fill in the blanks (0.5×4=2)
3. True and false (0.5×4=2)
4. One word for the following (0.5×4=2)
5. Short answer the questions (1.5×4=6)
6. Long answer questions (3×1=3)

### Question paper pattern of Biology

**(16 Marks)**

1. MCQ (0.5×4=2)
2. Fill in the blanks (0.5×4=2)
3. True and false (0.5×4=2)
4. One word for the following (0.5×4=2)
5. Short answer the questions (1.5×4=6)
6. Long answer questions (2×1=2)

# Computer

1. **Tick the correct option**  $1 \times 10 = 10$
2. **Fill in the blanks**  $\frac{1}{2} \times 10 = 5$
3. **True and False**  $\frac{1}{2} \times 10 = 5$
4. **One word answer**  $1 \times 5 = 5$
5. **Guess Who am I**  $1 \times 5 = 5$
6. **Question and Answers**  $2 \times 5 = 10$
7. **Identify the picture and write the name**  $1 \times 5 = 5$
8. **Define the terms**  $2.5 \times 2 = 5$

# English

## **Section A (Literature)**

**(25)**

1. Choose the correct option (1x5=5)
2. Word meaning ( $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ )
3. Frame sentences (1x4=4)
4. Answer the question ( $1\frac{1}{2} \times 4 = 6$ )
5. fill in the blanks (1x4=4)
6. Match the column/ true or false ( $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ )

## **Section B ( Grammar)**

**(25)**

1. Choose the correct option/Rearrange the sentences or words (1x4=4)
2. Definition (2x2=4)
3. True or False/insert on correct place ( $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ )
4. Match the column/Identify ( $\frac{1}{2} \times 8 = 4$ )
5. Fill in the blanks/Underline (1x5=5)
6. Writing section Letter/Paragraph etc. (on any one topic) (1x5=5)

# Hindi

## खण्ड—क

1. शब्दार्थ  $\frac{1}{2} \times 8 = 4$
2. किताब के अभ्यास  $1 \times 10 = 10$   
(रिक्त स्थान, सही गलत का निशान, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, भाषा—बोध)
3. लघु उत्तरीय प्रश्न  $1 \times 5 = 5$
4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न  $3 \times 2 = 6$

## खण्ड—ख

5. व्याकरण पुस्तक के प्रश्न  $2 \times 5 = 10$
6. किताब के अभ्यास  $1 \times 5 = 5$

## खण्ड—ग

7. अपठित गद्यांश  $1 \times 4 = 4$
8. कविता लेखन (आठ पंक्तियाँ)  $\frac{1}{2} \times 8 = 4$
9. विज्ञापन लेखन  $2 \times 1 = 2$





## S.ST

### (SECTION – A: HISTORY)

(16 Marks)

- Q.1. Choose the correct answer: [1 × 4 = 4]
- Q.2. Fill in the blanks: [1 × 3 = 3]
- Q.3. Write TRUE/FALSE for the given statements: [1 × 3 = 3]
- Q.4. Answer the following questions: [1 × 6 = 6]
- 8 questions to be asked in total.
  - Students to attempt 6 questions in total.

### (SECTION – B: GEOGRAPHY)

(17 Marks)

- Q.1. Choose the correct answer: [1 × 4 = 4]
- Q.2. Fill in the blanks: [1 × 4 = 4]
- Q.3. Write TRUE/FALSE for the given statements: [1 × 3 = 3]
- Q.4. Answer the following questions: [1 × 6 = 6]
- 8 questions to be asked in total.
  - Students to attempt 6 questions in total.

### (SECTION – C: CIVICS)

(17 Marks)

- Q.1. Choose the correct answer: [1 × 4 = 4]
- Q.2. Fill in the blanks: [1 × 4 = 4]
- Q.3. Write TRUE/FALSE for the given statements: [1 × 3 = 3]
- Q.4. Answer the following questions: [1 × 6 = 6]
- 8 questions to be asked in total.
  - Students to attempt 6 questions in total.